

प्रेस विज्ञप्ति

=====

29 पेटी 36 क्वार्टर (कुल 1341 क्वार्टर) देशी शराब मिस इंडिया यूपी मार्का मय स्विफ्ट डिजायर गाड़ी सहित थाना सिकन्द्राबाद पुलिस द्वारा एक अभियुक्त किया गया गिरफ्तार।

=====

आज दिनांक 04.06.2021 को थाना सिकन्द्राबाद पुलिस द्वारा क्षेत्र में गश्त व चैकिंग में मामूर थी कि मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ग्राम दुल्हैरा में ठेके की शराब को भारी मात्रा में खरीदकर शराब को अपनी स्विफ्ट डिजायर कार में रखकर अवैध तरीके से फुटकर में घूम-घूमकर बिक्री कर रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुंचकर ग्राम दुल्हैरा के पास महेपा जागीर से गाड़ी स्विफ्ट डिजायर कार में सवार उक्त व्यक्ति को मिस इंडिया यूपी मार्का देशी शराब सहित समय दोपहर 12.05 बजे गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त बरामद शराब मिस इंडिया यूपी मार्का देशी शराब है। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि उसके भाई रघुराज का गांव दुल्हैरा से एक किलोमीटर आगे शराब का ठेका है जिसकी देखरेख उसके द्वारा की जाती है। लाँकडाउन के कारण दुकान पर कम बिक्री हो पा रही थी इसलिए वह अपने भाई के ठेके से शराब लाकर अपनी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से घूम घूमकर बिक्री/सप्लाई कर आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. उदल सिंह पुत्र नेपाल सिंह निवासी ग्राम दुल्हैरा थाना सिकन्द्राबाद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

1- 29 पेटी 36 क्वार्टर (कुल 1341 क्वार्टर) देशी शराब मिस इंडिया यूपी मार्का

2- एक स्विफ्ट डिजायर कार नम्बर यूपी-16एयू-3403

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं-578/2021 धारा 60 आबकारी अधि० पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।